

प्रेस नोट दिनांक 20.09.2021

थाना कोतवाली जनपद बरेली

थाना कोतवाली #bareillypolice द्वारा मु0अ0सं0 385/21 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते एक नफर अभियुक्त जुनैद पुत्र गुडडू उर्फ फरजन अली निवासी मलूकपुर नाला थाना किला जनपद बरेली को गिरफ्तार कर कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित साइकिल व 03 अन्य साइकिल चोरी व एक अदद चाकू नाजायज बरामद किया गया।



दिनांक 20.09.2021 को वादी मुकदमा संगम कुमार मौर्य पुत्र श्री अशोक कुमार मौर्य नि0 312 चौपला सिविल लाइन थाना कोतवाली बरेली ने तहरीर सूचना दी थी कि मेरी साइकिल हरक्यूलिस ग्रांड चैम्पियन रंग काला फ्रेम नं0 JFN05252 जो मेरे घर के बाहर खड़ी थी को दिनांक 18.09.2021 को समय 20.30 बजे अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली है। सूचना के आधार पर थाना हाजा पर **मु0अ0सं0 385/21 धारा 379 भादवि** बनाम अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली के निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम महोदय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जनपद बरेली के कुशल नेतृत्व में मुकदमा उपरोक्त के सफल अनावरण तथा माल व मुल्जिमान की तलाश हेतु टीम गठित की गयी। विवेचना के क्रम में उ0नि0 श्री सनी द्वारा मय टीम के संघन चैकिंग अभियान चलाकर मुकदमा उपरोक्त का सफल अनावरण करते हुए **अभियुक्त जुनैद पुत्र गुडडू उर्फ फरजन अली निवासी मलूकपुर नाला थाना किला जनपद बरेली को** इस्लामिया ग्राउड पुरानी बिल्डिंग से गिरफ्तार कर कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी की साइकिल तथा जनपद के विभिन्न स्थानों से चोरी की अन्य 03 साइकिल व एक अदद चाकू नाजायज बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभि0

➤ जुनैद पुत्र गुडडू उर्फ फरजन अली निवासी मलूकपुर नाला थाना किला जनपद बरेली

बरामदगी का विवरण

- साइकिल हरक्यूलिस ग्रांड चैम्पियन रंग काला नम्बर JFN05252 सम्बन्धित मु0अ0सं0 385/21 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली बरेली
- साइकिल एटलस कम्पनी रंग काला नम्बर CH382567
- एटल्स कम्पनी रंग नीला नम्बर -EE069185
- साइकिल हरक्यूलिस नम्बर XN036655
- एक अदद चाकू नाजायज

आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0 385/21 धारा 379/411 भादवि व 41/102 सीआरपीसी थाना कोतवाली बरेली
- मु0अ0सं0 386/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बरेली

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- उ0नि0 सनी चौधरी थाना कोतवाली बरेली
- का0 183 सुमित कुमार थाना कोतवाली बरेली
- का0 3065 प्रवेश कुमार थाना कोतवाली बरेली